



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1936 (श०)

(सं० पटना 911) पटना, मंगलवार, 11 नवम्बर 2014

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

24 सितम्बर 2014

सं० वि०उ०-02-03/11-2155-23.09.2014: CWJC No.13980/2014 में दिनांक 01.09.2014 को मा० उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम 1981 की धारा-31(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुरेश कुमार सिन्हा, ईखायुक्त, बिहार, पटना ने मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर, प० चम्पारण द्वारा पेराई सत्र 2014-15 से पेराई सत्र 2016-17 तक के लिए प्रस्तुत 71 (इकहत्तर) अपरम्परागत ग्रामों के क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव पर पुनः सुनवायी किया। सुनवायी में संबंधित चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक श्री सत्य नारायण पोद्दार एवं ईख प्रबंधक, श्री अशोक कुमार शुक्ला, सभी ईख पदाधिकारी, सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर एवं संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना उपस्थित थे। संबंधित चीनी मिल के पक्ष में गैर परम्परागत ग्रामों का आरक्षण (वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14) आदेश जो बिहार गजट के असाधारण अंक संख्या-627 दिनांक 15.11.2012 में प्रकाशित हुआ था, और उसके पश्चात् तत्कालीन ईखायुक्त द्वारा ज्ञापांक-36 एवं 37 दिनांक 04.01.2012 द्वारा संशोधित (आंशिक) कर निर्गत किया गया था, का भी अवलोकन किया गया।

अपने क्षेत्र आरक्षण प्रस्ताव के संबंध में मेसर्स हरिनगर सुगर लि० के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता 10000 टी०सी०डी० की है। चीनी मिल के साथ एक 60 के०एल०पी०डी० की डिस्लरी एवं 14.5 मेगावाट की सह-विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित है। उनके लिए मात्र 362 ग्रामों का परम्परागत क्षेत्र गठित है, इसके अतिरिक्त अपरम्परागत रूप में बगहा अंचल के 7 ग्राम, भितहौ अंचल के 5 ग्राम, चनपटिया अंचल के 36 ग्राम, बैरिया अंचल के 2 ग्राम, लौरिया अंचल के 3 ग्राम एवं योगापट्टी अंचल के 7 ग्राम कुल 60 ग्राम विगत 14 वर्षों से इनके चीनी मिल के साथ आरक्षित होते आये हैं। उनके प्रबन्धन द्वारा इन ग्रामों में सघन ईख विकास कार्यक्रम के माध्यम से अपने चीनी मिल की आवश्यकता हेतु गन्ने का आच्छादन सुनिश्चित कराया गया है। पेराई वर्ष 2014-15 के लिए उनके चीनी मिल के लिए निर्धारित सामान्य ईख आवश्यकता 141.42 लाख क्विंटल है। उनके आरक्षित क्षेत्र में कुल 1.46 लाख एकड़ में ईख का आच्छादन है, जिसमें गत वर्ष के ज़ावल रेट 103 क्विंटल प्रति एकड़ के आधार पर लगभग 152 लाख क्विंटल गन्ना ही पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा। उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र में 150 दिन पेराई हेतु उन्हें 165 लाख क्विंटल गन्ने की आवश्यकता है। हरिनगर चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके आरक्षित क्षेत्र में ईख आच्छादन की इंटेंसिटी 67.58 प्रतिशत है तथा उनके आरक्षित क्षेत्र में गन्ने के सैचुरेशन को ध्यान

में रखते हुए उनको पूर्व में आरक्षित हो रहे तथा वर्तमान में लौरिया चीनी मिल को आरक्षित योगापट्टी अंचल के 09 ग्रामों एवं बगहा अंचल के 2 ग्रामों कुल 11 ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित करने की मांग की गयी।

हरिनगर चीनी मिल द्वारा किये गये उपरोक्त अनुरोध का प्रतिवाद करते हुए बगहा चीनी मिल के महाप्रबंधक (ईख) श्री बी. एन. त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि उनके चीनी मिल के लिए मात्र 295 ग्रामों का परम्परागत क्षेत्र गठित है तथा गत वर्ष उन्हें अपरम्परागत रूप से मात्र 3 ग्राम ही आरक्षित थे जिसमें गन्ने के पर्याप्त उपलब्धता नहीं रहने के कारण गत वर्ष उनकी चीनी मिल निर्धारित एन.सी.आर. 93.84 लाख क्विंटल के विरुद्ध मात्र 82.50 लाख क्विंटल गन्ने की ही पेराई कर पायी। गन्ने के अभाव में काफी दिनों तक उन्हें 'नो-केन' का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने अवगत कराया कि वर्तमान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2008-09 में इस चीनी मिल का अधिग्रहण किया गया तथा उस समय से आज तक निवेश करते हुए उनके कम्पनी द्वारा मिल की पेराई क्षमता को 2500 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक विस्तारित किया गया है तथा गत वर्ष उनकी चीनी मिल में औसतन 63000 क्विंटल प्रति दिन गन्ने की पेराई हुयी तथा उनकी चीनी मिल ने राज्य में सर्वाधिक रिकवरी 9.57 प्रतिशत प्राप्त कर सरकार द्वारा घोषित उच्च रिकवरी पुरस्कार का भी दावेदार बने। उन्होंने बताया कि आगामी पेराई सत्र 2014-15 के लिए उनका एन.सी.आर. 98.11 लाख क्विंटल निर्धारित हुआ है। पूर्व से आरक्षित क्षेत्रों में कराये गये जी.पी.एस. सर्वेक्षण के अनुसार कुल 58394.49 एकड़ में ईख का आच्छादन है जिससे उन्हें अनुमानित 82 लाख क्विंटल मात्र गन्ना ही पेराई हेतु उपलब्ध हो पायेगा। उपरोक्त आलोक में आगामी पेराई सत्र में अपने चीनी मिल के गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा बगहा अंचल के 9 ग्राम, भितहॉ अंचल के 5 ग्राम, चनपटिया अंचल के 16 ग्राम, योगापट्टी अंचल के 27 ग्राम एवं पूर्व से आरक्षित मधुबनी प्रखण्ड अन्तर्गत 3 ग्राम सहित कुल 60 ग्रामों को उनके पक्ष में अपरम्परागत रूप में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

बैठक में उपस्थित हरिनगर चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक श्री पोद्दार द्वारा यह बताया गया कि बगहा चीनी मिल की स्वीकृत अनुज्ञप्ति 5000 टी.सी.डी. है। उस आलोक में इनका एन.सी.आर. 65 लाख क्विंटल ही होनी चाहिए। उन्होंने विगत 5 वर्षों में बगहा चीनी मिल के ईख आच्छादन से संबंधित कागजात समर्पित करते हुए यह स्पष्ट किया कि बगहा चीनी मिल के ईख आच्छादन में वर्षवार निरंतर गिरावट आयी है। क्षेत्र में गन्ने का इंटेन्सीटी लगभग 30 प्रतिशत है जो बहुत ही कम है। फलस्वरूप, ईख विकास से संबंधित योजना कार्यान्वित कराते हुए क्षेत्र में गन्ने की उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित कर इस मिल द्वारा अपने आवश्यकता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है।

बैठक में उपस्थित लौरिया चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा भी उनके आरक्षित क्षेत्र अन्तर्गत योगापट्टी अंचल के 09 ग्रामों एवं बगहा अंचल के 2 ग्राम कुल 11 ग्रामों के हरिनगर चीनी मिल के आरक्षण प्रस्ताव का विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि उनका एन.सी.आर. 35.12 लाख क्विंटल है। यदि उनके क्षेत्र से गन्ने की पोचिंग नहीं होती है तो किसी प्रकार एन.सी.आर. के अनुरूप पेराई हेतु गन्ना उपलब्ध हो पायेगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष उनकी चीनी मिल 3500 टी.सी.डी. की क्षमता से चलेगी तथा अगले वर्ष उनके चीनी मिल की पेराई क्षमता को 5000 टी.सी.डी. तक विस्तारित करने की कार्य योजना है। उन्होंने बताया कि उनके आरक्षित क्षेत्र के बीच में हरिनगर चीनी मिल को योगापट्टी अंचल का एक ग्राम बलुआ निवाज राय (356) आरक्षित हो गया है, जो उनके चीनी मिल को आरक्षित होनी चाहिए।

इससे पूर्व दिनांक 18.09.2014 को संबंधित क्षेत्र के गन्ना कृषक एवं उनके प्रतिनिधियों की सुनवाई की गई। इस क्रम में श्री प्रभात रंजन सिंह, माननीय स०वि०स० एवं 65 अन्य द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदनों का भी अवलोकन किया गया। क्षेत्र आरक्षण के विषय पर दिनांक 18.09.2014 को सम्पन्न प० चम्पारण जिले के गन्ना किसानों की हुई सुनवायी के दौरान उनके द्वारा अभिव्यक्त की गयी भावनाओं सहित सभी किसानों, उनके प्रतिनिधियों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। हरिनगर चीनी मिल को गत वर्ष अपरम्परागत आरक्षित बगहा, चनपटिया एवं योगापट्टी अंचल के ग्रामों के कृषकों द्वारा सुनवायी के क्रम में हरिनगर मिल से प्राप्त होनेवाले सुविधा का उल्लेख करते हुए चीनी मिल के कार्य-कलाप पर संतोष व्यक्त किया गया तथा यह आग्रह किया गया कि गत वर्ष में उनके लिए किये गये हरिनगर चीनी मिल के साथ क्षेत्रारक्षण की व्यवस्था को यथावत् रखा जाय। भितहॉ एवं मधुबनी प्रखण्ड कुछ किसानों द्वारा यह आग्रह किया गया कि उनका क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ प्रचुर मात्रा में पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता है। उपरोक्त आलोक में उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उनके क्षेत्र को मुक्त (फ्री) रखते हुए हरिनगर एवं बगहा दोनों चीनी मिलों का क्रय केन्द्र स्थापित करवाते हुए गन्ने के खपत की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय। तदोपरान्त क्षेत्रीय विकास परिषद की अनुशंसा का भी अवलोकन किया गया एवं विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को भी सुना गया।

हरिनगर चीनी मिल द्वारा क्षेत्रारक्षण हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं कार्यालय अभिलेख आदि के अवलोकन से प्रतीत होता है कि हरिनगर चीनी मिल की पेराई क्षमता 10000 टी.सी.डी. है। चीनी मिल का एन.सी.आर. 141.42 लाख क्विंटल है। इस चीनी मिल को गत वर्षों के आरक्षित ग्रामों में 146664.15 एकड़ गन्ना आच्छादन है। चीनी मिल क्षेत्र में लगभग 205 लाख क्विंटल मात्र गन्ना उपलब्ध है जो उनके एन.सी.आर. से अधिक है। बगहा चीनी मिल की अनुज्ञप्ति धारित पेराई क्षमता 5000 टी.सी.डी. है। चीनी मिल का एन.सी.आर. 98.11 लाख क्विंटल है। चीनी मिल को गत वर्षों तक आरक्षित ग्रामों में 58394.49 एकड़ गन्ना आच्छादन है। विभागीय सट्टा नीति के अनुसार इस चीनी मिल क्षेत्र में 82 लाख क्विंटल गन्ने की उपलब्धता परिलक्षित होती है। लौरिया चीनी मिल का एन.सी.आर. 35.12 लाख क्विंटल निर्धारित है जिस निमित्त उन्हें गन्ने की उपलब्धता परिलक्षित होती है। योगापट्टी अंचल अन्तर्गत हरिनगर चीनी मिल

को आरक्षित ग्राम बलुआ निवाज राय (356) को भी नक्शे पर देखा गया तथा यह पाया गया कि यह लौरिया चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के बीच स्थित है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त और संबद्ध पक्षों को सुनने के बाद मेसर्स हरिनगर सुगर मिल्स, जिला-प० चम्पारण, बिहार के पक्ष में पेराई सत्र 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (तीन पेराई सत्रों के लिए) राज्य के प० चम्पारण जिलान्तर्गत निम्नांकित ग्रामों को जिसका विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची 'क' एवं 'ख' में दर्शित है, को अपरम्परागत रूप से आरक्षित किया जाता है।

जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	समेकित कुल ग्रामों की संख्या	ग्रामों के विवरण की अनुसूची
1	2	3	4
प० चम्पारण	बगहा	7	अनुसूची 'क' एवं 'ख'
	चनपटिया	36	
	बैरिया	2	
	लौरिया	3	
	योगापट्टी	7	
	भितहौ	1	
कुल योग:-		56	

2. आदेश ज्ञापांक-2154 दिनांक 24.09.2014 के माध्यम से आरक्षण मुक्त किये गये भितहौ अंचल अन्तर्गत ग्राम-के. मानपुर राजस्व थाना नं०-395, कन्हैयापुर थाना नं०-406, प्रेमही थाना नं०-408 एवं के. वसौली थाना नं०-299 तथा मधुबनी अंचल अन्तर्गत कुड़िया थाना नं०-296, कौआहा थाना नं०-297 एवं मठिया थाना नं०-298 कुल सात ग्रामों जो हरिनगर एवं बगहा चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र से सटे हुए हैं, से अगले आदेश तक क्रय केन्द्र स्थापित कर बगहा एवं हरिनगर दोनों चीनी मिल उपलब्ध गन्ने का क्रय कर सकेगी।

लेखापित एवं शुद्धित  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना

आदेश से,  
सुरेश कुमार सिन्हा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना

पेराई सत्र 2014-15 से 2016-17 तक के लिए हरिनगर सुगर मिल्स लि०, हरिनगर प० चम्पारण को अपरम्परागत रूप में आरक्षित 56 ग्रामों की सूची:-

अनुसूची-"क"

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	बगहा	01.	चंद्रहा	390
		02.	टोला पूर्वाशी	391
		03.	बथुवरिया	392
		04.	टोला भंगहा	393
		05.	गुरवलिया	394
		06.	जमुनिया	396
		07.	टोला गर्भशाही	397
	योगापट्टी	08.	पिपरपौती	395

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		09.	भरतापट्टी	396
		10.	गरदहीया	397
		11.	ढढ़वा	399
		12.	पिपरहिया	400
	भितहौ	13.	पकड़ी	398

## अनुसूची-“ख”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	चनपटिया	01.	कोकिलाडीह	2
		02.	सिन्दुरिया	3
		03.	भैसाही	5
		04.	नवगौवा	53
		05.	गोईटा टोला	54
		06.	लच्छू छापर	55
		07.	पोखरिया राय	56
		08.	पोखरिया खुर्द	57
		09.	पुरईना गोसाई	59
		10.	करनपट्टी	60
		11.	लगुनाहा	62
		12.	कुडवा मठिया	81
		13.	पटखौली	83
		14.	मिश्ररौली	84
		15.	श्रीनगर	85
		16.	सिसवनिया	86

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		17.	खरदेउर	87
		18.	मिसकार टोला	88
		19.	जियाछा टोला	89
		20.	चुहरी	90
		21.	पोखरिया बाबू	91
		22.	सिरिसिया	92
		23.	मुशहरी	93
		24.	सवेया टोला	94
		25.	सवेया खुर्द	95
		26.	बंदो पट्टी	96
		27.	तुरहा पट्टी	100
		28.	जिनवलिया	101
		29.	विसवन	102
		30.	भारपटिया	103
		31.	पटर्खा नौरंगिया	122
		32.	हीरा पाकड़	123
		33.	परसा	124
		34.	गुरवलिया विश्वास	125
		35.	गुरवलिया बंदोवस्ती	126
		36.	विशुनपुर	138
	बैरिया	37.	मथौली	139
		38.	भटवलिया	144
	लौरिया	39.	मौलानगर	483

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
		40.	परसौना	484
		41.	वृंदावन	485
	जोगापट्टी	42.	मिश्रावली	97
		43.	पटखौली	98

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
 बिहार गजट (असाधारण) 911-571+50-डी0टी0पी0।  
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>